राधाकृष्ण गणोदीपिका
रस तरंगिणी (नौकाटीका)
वेदान्त परिभाषा
लघुयोग वसिष्ठ
अनुभूति प्रकाश
न्याय मुक्तावली
जगदीशी पंच लक्षणी
जगदीशी अवच्छेदकत्व निरुक्ति
परिभाषेन्दु शेखर (मन्नुदेवी)
परिभाषेन्दु शेखर (शांकरी)
परिभाषेन्दु शेखर (त्रिपथगा)
लघु मंजूषा
शान्ति कमलाकर भट्ट (शांतिपर्व)
व्रतराज
पूजा समुच्चय
काल माधवः
प्रपञ्च सार विवेक
ब्राम्हण सर्वस्वम (शिलाक्षर)
स्कन्द पुराण
हरिवंशः
ग्रहलाघव
स्कन्द पुराण
स्कन्द पुराण
प्रायश्चितेन्दु शेखर पोथी
देवी भागवत
हरिवंश सटीक
श्रीमद भागवत लीला कल्प द्रुम
श्रीमदभागवतम (वंशीधरी टीका)
श्रीमद भागवतम 1-3
[redacted]

श्रीमद भागवतम् 1-9
पद्म पुराण प्रथम
पद्म पुराण द्वितीय भाग
वाल्मीकि रामायणम् सटीक
सनत्सुजातीय सभाष्यम्
शिव महापुराणम्
मत्स्य पुराणम्
कूर्म पुराणम्
ब्रम्ह पुराणम्
वायु पुराणम्
भविष्य पुराणम्
ब्रम्ह वैवर्त पुराणम्
कालिका पुराणम्
वामन पुराणम्
आदि पुराणम्
साम्ब पुराणम्
काशी खण्डम् सम्पूर्ण
लिंग पुराणम्
वाराह पुराणम्
नारद पुराणम्
आग्नेय पुराणम्
मार्कण्डेय पुराणम्
ब्रम्हाण्ड पुराणम्
विष्णु पुराणम्
विष्णु धर्मोत्तर खण्ड पुराणम्
लोलिम्ब राज
दुर्गा सप्तशती (टी नागोजी भट्ट)
—do—
जीवन मुक्तावली

श्रीमद भागवतम (श्रीधरी)
महाभारत नीलकंठी
जैमिनीयांशतगेघः
न्याय रत्नम

शिशुपाल वधम 1-3 सर्ग पोथी
पाराशरी जातकम
उड़दाय प्रदीप (पाराशरीपोथी)
लघु पाराशरी (— " —)
चाणक्यनीतिशास्त्राम (हस्तलिखित)
तांत्रिक नीलकंठी सटीक अध्याय 1-2
तांत्रिक नीलकंठी सहान्ना अध्याय सटीक
संदर्भ सरक्षम पोथी 10 प्रति
स्त्री जातकम (हस्तलिखित)
अब्द रत्नम (संसाकृति)
हायन रत्नम
ताजक रत्नम
होराम करन्द (नष्टजातकाध्याय पोथी)
आचारार्क: सम्पूर्ण
निर्णय सिंधु की अनुक्रमणिका। तथा धर्मसि
केशवी चे उदाहरण। पोथी
चन्द्रोन्मीलन दीपिका (हस्त लिखित)
राजराती टी नागोजी भट्ट
तांत्रिक भूषणे भोजन चिन्ता विचाराध्याय
पंचदशी सटीक
विष्णु सहस्त्रनाम भाष्यम (हस्त.
मुहुर्त मत्रंरी (चतुर्थ गुच्छ)
मुहुर्त मार्तण्ड (9 पेज की पोथी
[redacted]

राम मलोयन (चक्र 64)
शीघ्र बोधः
मुहूर्त चिन्तामणि (प्रमिताक्षर)
मुहूर्त दीपक (सटीक)
मुहूर्त गणपतिः पोथी
अर्घ प्रदीपिका
राज मार्त्तण्ड
प्रयोग रत्न (नारायण भट्टी)
संस्कार कौस्तुभः
—— do ——
संस्कार भास्कर (शुक्ल यजुर्वेद)
हिरण्य केशीय ब्रम्हकर्म समुच्चय
ऋग्वेदि ब्रह्मकर्म समुच्चय
आध्यात्म रामायण सटीक
बौधायन ब्रम्हकर्म समुच्चय
मेदिनी कोश
भोज प्रबन्ध
मंत्र महोदधि
श्री महाभागवत
कारिकावली
शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी
प्रेत मंजरी
व्रतोद्यापन कौमुदी